

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 398] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 1973/अ ह/पग 5, 1895

No 398] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 1973/AGRAHAYANA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24 November, 1973.

S.O. 7(11E).— In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules 1961, the following is published for general information:—

FORM 7A

List of contesting candidates

[See rule 10(1)]

Bye-election to the House of the People from 14-Sabarkantha Constituency

Serial No.	Name of candidate	Address of candidate	Symbol allotted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Josbi Chandrashankar Kodarlal	Room No. 7, Joshi Bhuvan, Dattpada Road, Borivali (East), Bombay-92.	Scales
2.	Desai Chandrakant Chimanlal	Soniwada, At & P.O. Prantij, Taluka Prantij, District Sabarkantha.	Rising Sun

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Dhanek Kalidas Nathabhai	Sonasan, Taluka Prantij, District Sabarkantha.	Haldhar
4	Patel Maniben Vallabhnbhai	42/A/1, Brahm-Khsatriya Society, Ellisbridge ward, Ahmedabad.	Charkha being plied by a woman.
5	Patel Shantubhai Chunibhai	Talod, Taluka Prantij, District Sabarkantha.	Calf and cow
6	Pandya Bechardas Govindram	At road P.O. Hrdol, Taluka Kheralu, District Mchsera.	House,
7	Manubhai Amersey	Green Field, Maharshi Karve Road, Churchgate, Reclamation, Bombay-20.	Star
8	Rajput Karansinh Pritamsinh	Near Ambaji Mite, Prantij, District Sabarkantha.	Railway Engine
9	Shah Natwarlal Jamnadas	At & P.O. Talod, Taluka Prantij, District Sabarkantha.	Bicycle
10	Shivprasad Gaurishankar Shelat	Baleli Pole Shree Bhagirathi Devi Grah, Umreth, District Kaira.	Lion

PLACE : Himatnagar

DATE: 17-11-1973.

Sd/- C. P. PATEL,
Returning Officer,
14-Sabarkantha Parliamentary Constituency,
Himatnagar.

[No. 100/GJ-HP/3/72.

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1973

एस० आ० 712 (अ).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में, निम्नलिखित का प्रकाशन सर्वसाधारण की सूचनार्थ किया जाता है :—

प्रारूप 7क

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिए]

14-साबरकंठा निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिये उप-निर्वाचन ।

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आबंटित प्रतीक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जोशी चन्द्रशंकर कोदरलाल	कमरा नं० 7, जोशी भुवन, तराजू दत्तपाडा रोड, बोरीवली (पूर्व), बम्बई-92 ।	

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	देसाई चन्द्रकान्त चिमनलाल	सोनीवाडा, स्थान और पो० आ० प्रांतिज, तालुक प्रांतिज, जिला साबरकंठा ।	उदीयमान सूर्य
3.	घानेक कालिदाम नाथाभाई	सोनासन, तालुक प्रांतिज, जिला साबरकंठा	हलधर
4.	पटेल मणिबेन वल्लभभाई	42/क/1, ब्रह्मक्षत्रीय सोसाइटी, एलीसब्रज वाडें, अहमदाबाद ।	चर्खा कातती हुई महिला ।
5.	पटेल शांतुभाई चुनीभाई	तलोद, तालुक प्रांतिज, जिला साबरकंठा ।	गाय और बछड़ा
6.	पंड्या बेचरबास गोविन्दराम	स्थान और पो० आ० हडोल, तालुक खेरालु, जिला मेहसाना ।	घोड़ा
7.	मनुभाई अमरसी	ग्रीन फील्ड, महर्षि कर्ले रोड, चर्च गेट, रिक्लेमेशन, बम्बई-20 ।	मिनारा
8.	राजपूत करणसींह प्रीतमसींह	अम्बाजी माता के पास, प्रांतिज, जिला साबरकंठा ।	रेल का इंजन
9.	शाह नटवरलाल जमनादास	स्थान और पो० आ० तलोद, तालुक प्रांतिज, जिला साबरकंठा ।	साइकिल
10.	शिव प्रसाद गौरीशंकर शेलत ।	बलेली पोल श्री भागीरथी देवी गृह, उमरेठ, जिला खैड़ा ।	शेर ।

स्थान : हिम्मतनगर

तारीख : 17-11-1973

(ह०) सी० पी० पटेल,
रिटनिंग आफिसर,
14-साबरकंठा संसदीय निर्वाचन
क्षेत्र, हिम्मतनगर ।

[सं० 100/गुज-लो० सं०/3/72]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

